

प्रेस नोट दिनांक 23.09.2021

थाना मीरगंज जनपद बरेली ।

थाना मीरगंज #bareillypolice द्वारा स्मैक तस्कर अभियुक्त को 112 ग्राम स्मैक व मो0सा0 के साथ

किया गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्मैक तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मीरगंज के कुशल पर्यवेक्षण में प्र0नि0 मीरगंज के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री सतवीर सिंह मय हमराह का.165 नीरज कुमार व का.1445 निशान्त के नल नगरिया तिराहे पर संदिग्ध वाहन/ व्यक्तियों की चैकिंग कर रहे थे उसी समय नल नगरिया गांव की ओर से एक मोटरसाईकिल आती हुई दिखायी दी। मोटरसाईकिल संख्या टीवीएस अपाचे UP25 CV 7714 को रोका तो मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा एक व्यक्ति तेजी से उतरकर पीछे मुड़कर अधेरे का फायदा उठाकर भाग गया तथा मौके से मोटरसाईकिल चला रहे व्यक्ति रोहित कुमार शर्मा उर्फ हन्नी पुत्र पंकज उपाध्याय निवासी ग्राम गुलडिया थाना मीरगंज जिला बरेली को पकड़ लिया गया। जिसके कब्जे से 112 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अभियुक्त रोहित ने कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि जो व्यक्ति मेरे साथ मोटरसाईकिल पर बैठा था, उसका नाम असलम पुत्र नन्हे निवासी गुलडिया थाना मीरगंज जनपद बरेली है। मैं और असलम दोनो मिलकर अपने ही गांव गुलडिया के मुबारक पुत्र वावू व जाहिद पुत्र वावू से स्मैक लेकर आते है जिसे बेचने के लिए जा रहे थे इससे पहले भी कई बार मुबारक व जाहिद ने हमे स्मैक बेचने के लिए भेजा था। मुबारक व जाहिद काफी दिनों से स्मैक का काम करते हैं। मुबारक व जाहिद का माल हम रामपुर, उत्तराखण्ड व दिल्ली में कई बार बेच चुके है। जाहिद तथा मुबारक अन्य लोगों से भी अपना माल बिकवाते है। आज भी हम दोनो लोग माल लेकर बेचने के लिए जा रहे थे। पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित कुमार शर्मा उर्फ हन्नी पुत्र पंकज उपाध्याय निवासी ग्राम गुलडिया थाना मीरगंज जिला बरेली को 112 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया तथा अभियुक्त असलम पुत्र नन्हे निवासी गुलडिया थाना मीरगंज जिला बरेली मौके से भागने में सफल रहा। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 331/21 धारा 8/21 NDPS ACT बनाम 1. रोहित कुमार शर्मा उर्फ हन्नी पुत्र पंकज उपाध्याय निवासी ग्राम गुलडिया थाना मीरगंज जिला बरेली 2. असलम पुत्र नन्हे निवासी गुलडिया थाना मीरगंज जनपद बरेली 3. मुबारक पुत्र वावू 4. जाहिद पुत्र वावू निवासी ग्राम गुलडिया थाना मीरगंज जिला बरेली पंजीकृत किया गया। तथा मौके से बरामद मोटरसाईकिल टीवीएस अपाचे UP 25 CV 7714 के कोई कागज न होने पर सीज किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

रोहित कुमार शर्मा उर्फ हन्नी पुत्र पंकज उपाध्याय निवासी ग्राम गुलडिया थाना मीरगंज जिला बरेली उम्र करीब 21 वर्ष।

वांछित अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. असलम पुत्र नन्हे निवासी गुलडिया थाना मीरगंज जनपद बरेली
2. मुबारक पुत्र वावू निवासी ग्राम गुलडिया थाना मीरगंज जनपद बरेली
3. जाहिद पुत्र वावू निवासी ग्राम गुलडिया थाना मीरगंज जिला बरेली

बरामदगी का विवरण:- अभियुक्त के कब्जे से 112 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 10 लाख रूपये) एक अदद मोटरसाईकिल – टीवीएस अपाचे नम्बर UP 25CV 7714 रंग काला ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सतवीर सिंह थाना मीरगंज बरेली
2. का0 165 नीरज कुमार थाना मीरगंज बरेली
3. का0 1445 निशान्त कुमार थाना मीरगंज बरेली।

**प्रभारी निरीक्षक मीरगंज
जनपद बरेली ।**